



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 189 राँची, गुरुवार,

28 फ़रवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 जनवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-441/2014 का० 691-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नागेन्द्र शर्मा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-532/03, गृह जिला-गया), तत्कालीन उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रभारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक अक्षमता, दुराचार का बढ़ावा, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कार्यों में शिथिलता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-832, दिनांक 05.03.2013 द्वारा गठित संलग्न प्रपत्र -'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2 अतः श्री शर्मा के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री शर्मा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री शर्मा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर नगर निगम को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
